



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207] नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 20, 1975/प्राशित 28, 1897

No. 207] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 1975/ASVINA 28, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 20th October 1975

No. **DRAWBACK/PN-76/75**.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. **DRAWBACK/PN--**, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 4603 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
4603	All Aluminium Conductors	Rs. 5.53 (Rupees five and paise fifty three only) per kg. of Aluminium content.

Provided no rebate of Central Excise duty paid under item 27 of the Central Excise Tariff has been claimed or obtained under Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under Bond in respect of Central Excise duty payable under the aforesaid tariff item.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1975.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1975

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-76/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा०सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है —

उप-क्रमांक 4603 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

क्र० सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
4603	एल्यूमिनियम के समस्त संवाहक	एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के प्रति कि०ग्रा० पर 5.53 रुपये (केवल पांच रुपये और तिरपन पैसे)

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क टैरिफ की मद 27 के अधीन अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया हो अथवा प्राप्त नहीं किया गया हो अथवा टैरिफ की उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंध में बन्ध-पत्र के अधीन निर्यात नहीं किया गया हो।

यह सार्वजनिक सूचना अक्टूबर, 1975 के 15वें दिन को लागू हुई समझी जायगी।

No. DRAWBACK/PN-77/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For item (ii) of sub-serial No. 4606 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Description of goods	Rate of drawback
(ii) With aluminium conductors.	30% (Thirty per cent only) of the export f.o.b. value.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 15th day of October, 1975.

C. BHUJANGASWAMY, Dy. Secy.

सं० प्रतिअदायगी पो० एन०-77/75.—मीमांशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पन्न शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित मंशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 4606 की मद (ii) और तदसंबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

माल का विवरण	प्रति अदायगी की दर
(ii) एल्यूमीनियम संवाहकों से युक्त	पोन पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 30 प्रतिशत (केवल तोस प्रतिशत)

यह सार्वजनिक सूचना अक्टूबर, 1975 के 15वें दिन को लागू हुई समझी जायगी।

सी० भुजंगस्वामी,
उप-सचिव।

